

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी
कोल) इंडिया लिमिटेड का एक अंग (**जनसम्पर्क विभाग**

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद – 826005



Bharat Coking Coal Limited

A Miniratn Company
(A subsidiary of Coal India Ltd)
Public Relation Department
Koyla Bhawan, Koyla Nagar,
Dhanbad, Jharkhand-826005

दिनांक: 27 अक्तूबर, 2015

प्रेस विज्ञप्ति

बीसीसीएल को राजभाषा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 9 सम्मान प्राप्त

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा मद्रुरै में दिनांक 14-16 अक्तूबर, 2015 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न श्रेणियों में 9 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। निदेशक (कार्मिक) श्री बी के पण्डा को राजभाषा के क्षेत्र में विशिष्ट मार्गदर्शन व बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **राजभाषा कीर्ति सम्मान**, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं.) श्री सोलोमन कुदादा को **विशेष राजभाषा कीर्ति सम्मान**, श्री दीपक कुमार सिन्हा, उप प्रबंधक (सचिवीय/राजभाषा) को **राजभाषा शिल्पी सम्मान**, श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) और श्री उदयवीर सिंह, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) को **विशिष्ट राजभाषा शिल्पी सम्मान**, श्री श्याम नारायण सिंह, वरीय अनुवादक को **विशेष राजभाषा विशिष्टता सम्मान**, श्री नवीन कुमार पाण्डेय, राजभाषा प्रभारी, कुसुंडा क्षेत्र व श्री अनिरुद्ध नोनिया, अनुवादक को **राजभाषा विशिष्टता सम्मान** से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बीसीसीएल की गृह पत्रिका "कोयला भारती" को **'राजभाषा दीप्ति सम्मान'** से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में पूरे देश भर से विभिन्न संगठनों/बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। उपर्युक्त सम्मेलन में बीसीसीएल की ओर से श्री नवीन कुमार पाण्डेय, श्री ओमप्रकाश सिंह और श्री अनिरुद्ध नोनिया सम्मिलित हुए थे।

उक्त पुरस्कार को राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 2015 को निदेशक (कार्मिक) महोदय के कक्ष में सौंपा गया। निदेशक (कार्मिक) महोदय ने राजभाषा विभाग को बधाई देते हुए राजभाषा के क्षेत्र में और अधिक बढ चढकर कार्य करने का आह्वान किया। मौके पर महाप्रबंधक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) श्री सोलोमन कुदादा, महाप्रबंधक (सीएसआर) श्री पी के चौधरी, उप महाप्रबंधक (कल्याण) श्री एस सूद, श्री के एस सिन्हा, प्रबंधक (कार्मिक), श्री दीपक कुमार सिन्हा, उप प्रबन्धक (सचिवीय/राजभाषा), श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री उदयवीर सिंह, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), श्री यू एन तिवारी, वरीय निजी सहायक आदि उपस्थित थे।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी
कोल) इंडिया लिमिटेड का एक अंग (
जनसम्पर्क विभाग

कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद – 826005



Bharat Coking Coal Limited

A Miniratn Company
(A subsidiary of Coal India Ltd)
Public Relation Department
Koyla Bhawan, Koyla Nagar,
Dhanbad, Jharkhand-826005

